



# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 93]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 1977/फाल्गुन 4, 1898

No. 93] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 1977/FALGUNA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd February 1977

S.O. 190(E)/15A/IDRA/77.—Whereas Messrs Shalimar Biscuits Limited, Bombay owning two industrial undertaking at Sun Mills compound, Lower Parel, Bombay and at Secundrabad, is being wound up under the supervision of the Bombay High Court and the business of the company is not being continued;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is necessary, in the interests of the general public, and, in particular, in the interests of production of the articles manufactured in the said industrial undertakings, to investigate into the possibility of running or re-starting the aforesaid industrial undertaking;

And, whereas, on an application under section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), made by the Central Government to the Bombay High Court praying for permission to make an investigation into such possibility, the Bombay High Court has by its Order dated 24th January, 1977, granted the requisite permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15A of the industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government

hereby appoints, for the purpose of making an investigation into the possibility of re-starting the aforesaid industrial undertaking, a body of persons consisting of:

*Chairman*

1. Shri S. Ramaswamy, Officer on Special Duty, Directorate General of Technical Development, New Delhi

*Members*

2. Shri D. B. Chakki, Manager (Finance), Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd., Calcutta.
3. Dr. M. M. Krishna, General Manager, Modern Bakeries Ltd. (Research & Development Unit) New Delhi.

2. The above body shall submit the report to the Central Government by the 31st March, 1977.

[No. F. 2(23)/75-CUC]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

**उद्योग मंत्रालय**

**(औद्योगिक विकास विभाग)**

**आदेश**

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1977

का० आ० 190(अ)/15क/आई डी आर ए'77.—मैसर्स शालीमार बिस्कुट्स लिमिटेड, मुम्बई, जो सनेमिल्स ग्रहाता, लोअर परेल, बम्बई और सिकन्दराबाद में, दो औद्योगिक उपक्रमों की स्वामी है, मुम्बई उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन परिसमाप्ति की जा रही है और इस कम्पनी का कारोबार जारी नहीं रखा जा रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में तथा, विशेष रूप से, उक्त औद्योगिक उपक्रमों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन के हित में, यह आवश्यक है कि पूर्वोक्त औद्योगिक उपक्रम को चलाने या पुनः आरम्भ करने की संभावना की जाच की जाए ;

और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय को किए गए आवेदन पर, जिसमें ऐसी सम्भावना की जाच करने की अनुज्ञा देने की प्रार्थना की गई है, मुम्बई उच्च न्यायालय ने अपने 24 जनवरी, 1977 के आदेश द्वारा अपेक्षित अनुज्ञा प्रदान कर दी है ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पूर्वोक्त औद्योगिक उपक्रम को पुनः आरम्भ करने की संभावना की जाच के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :

**अध्यक्ष**

1. श्री एस० रामास्वामी, विशेष काय अधिकारी, तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली ।

## सबस्य

2. श्री डी० वी० चक्की, इन्डस्ट्रियल रीकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता ।
2. डा० एम० एम० कृष्ण, महाप्रबन्धक, मीडर्न बैकरीज लिमिटेड (अनुसंधान और विकास एकक), नई दिल्ली ।
2. उपर्युक्त निकाय अपनी रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को 31 मार्च, 1977 तक प्रस्तुत करेगा ।

[सं० फा० 2(23)/75—सी यू सी]

ए० के० घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

